

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के निवासियों को, एम.पी.ए.सी. की voterlookup.ca पर विवरण देखने की सलाह दी जाती है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 अप्रैल, 2022) – अक्टूबर में होने वाले 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव (Brampton Municipal and School Board Election) में 200 दिनों से भी कम समय बचा है, इसलिए अब वोट की प्लानिंग शुरू करने का समय है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों को सलाह देती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए, voterlookup.ca पर जाएं कि उन्हें मतदाताओं की प्राथमिक सूची (Preliminary List of Electors) में शामिल किया हुआ है और उनकी पूरी जानकारी सही है।

म्युनिसिपल प्रॉपर्टी असेसमेंट कॉर्पोरेशन (एम.पी.ए.सी.) (Municipal Property Assessment Corporation) (MPAC), मतदाताओं की प्राथमिक सूची बनाती है, जिसका प्रयोग, चुनावों के लिए वोटर सूची (Voters' List) तैयार करने के लिए किया जाता है।

[Voterlookup.ca](https://voterlookup.ca), एम.पी.ए.सी. (MPAC) के द्वारा प्रदान की जाने वाली, प्रयोग में आसान, ऑनलाइन सेवा है।

झलकियां:

- 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव में योग्य वोटर, वह व्यक्ति है, जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, वह कैनडा का नागरिक है, ब्रैम्पटन का निवासी है या ब्रैम्पटन में प्रॉपर्टी का मालिक या किराएदार है या मालिक या किराएदार का जीवनसाथी है।
- यह पुष्टि करने के लिए कि, आगामी म्युनिसिपल चुनावों के लिए रिकॉर्ड की हुई आपकी जानकारी सही है, voterlookup.ca पर जाएं और अपनी म्युनिसिपल्टी, पूरा नाम, जन्मतिथि और अपनी प्रॉपर्टी का पता या असेसमेंट रोल नंबर दर्ज करें।
- चाहे आप पिछले म्युनिसिपल चुनावों में वोटर सूची में थे, फिर भी यह सत्यापित करने के लिए अभी सूची देखें कि आपके विवरण सही हैं।
- यदि आप पिछले कुछ वर्षों में 18 वर्ष के हुए हैं, हाल ही में ब्रैम्पटन में आए हैं या ब्रैम्पटन में घर बदला है या कैनडा के नए नागरिक हो, तो voterlookup.ca पर अपनी जानकारी अपडेट करें।
- प्रोविंसियल चुनाव भी इस वर्ष, 2 जून को हो रहे हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वह, अपनी जानकारी की पुष्टि या अपडेट करने के लिए, eregistration.elections.on.ca पर प्रोविंसियल वोटर सूची देखें।

अधिक जानकारी के लिए, voterlookup.ca पर जाएं या एम.पी.ए.सी. को, 1.866.296.6722 पर या TTY 1.877.889.6722 पर संपर्क करें।

हवाला

“यह पुष्टि करना कि एम.पी.ए.सी. की, voterlookup.ca पर आपकी जानकारी सही है, 2022 के ब्रैम्पटन म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड

चुनाव में वोट देने के लिए तैयारी करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। योग्य वोटर, वोटिंग डे को अपने वोटिंग स्थान पर समय बचाने में मदद के लिए, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सूची में उनकी जानकारी अप-टू-डेट है।”

- पीटर फे (Peter Fay), सिटी क्लर्क और रिटर्निंग अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca